



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण


EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 43]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 1976/माघ 28, 1897

No. 43]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 1976/MAGHA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

### PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 17th February 1976

**No. DRAWBACK/PN-20/76.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

I. For item (b) of sub-serial No. 2509 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(b) Viscose tyre yarn . . . . . Rs. 2.45 (Rupees two and paise forty five only) per kg.

II. For sub-serial No. 2510 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

2510 (a) Viscose tyre cord/twine . . . . . Rs. 2.45 (Rupees two and paise forty five only) per kg.

(b) Viscose tyre cord/twine . . . . . Rs. 4.95 (Rupees four and paise ninety five only) per kg.

**Explanation.**—(1) The rate at (a) above shall also be applicable to export of viscose tyre cord/twine when exported under bond under rule 13 or 14 of the Central Excise Rules, 1944.

(2) The rate at (b) above shall apply only if the Central Excise duty on yarn has been paid at the appropriate rate and no rebate of the said duty has been obtained under Central Excise Rules 1944.

III. For sub-serial No. 2621 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

2621 (a) Viscose tyre cord fabrics/warp sheets . Rs. 2.45 (Rupees two and paise forty five only) per kg.

(b) Viscose tyre cord fabrics/warp sheets . Rs. 4.95 (Rupees four and paise ninety five only) per kg.

*Explanation.*—(1) The rate at (a) above shall also be applicable to export of viscose tyre cord/warp sheet when exported under bond under rule 13 or 14 of the Central Excise Rules, 1944.

(2) The rate at (b) above shall apply only if the Central Excise duty on yarn has been paid at the appropriate rate and no rebate of the said duty has been obtained under Central Excise Rules, 1944.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of February 1976.

### वित्त मंत्रालय

#### (राजस्व और बीमा विभाग)

#### सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1976

सं० प्रतिअदायगी/पी०-एन० 20/76.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, [भारत के राजपत्र, (असाधारण) दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र० अ०] के नियम, 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है।

I. उप-क्रमांक 2509 की मद (ख) और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

(ख) विस्कोस टायर धागा 2.45 रुपये (केवल दो रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम

II. उप-क्रमांक 2510 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

2510 (क) विस्कोस टायर कार्ड/टुवाइन 2.45 रुपये (केवल दो रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम

(ख) विस्कोस टायर कार्ड/टुवाइन 4.95 रुपये (केवल चार रुपये और पंचानबे पैसे) प्रति किलोग्राम

**स्पष्टीकरण.**—(1) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत दी गयी दर विस्कोस टायर कार्ड/टुवाइन के निर्यात के लिये भी लागू होगी, जब वे केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अन्तर्गत बन्ध-पत्र के अधीन निर्यात किये जाते हों।

(2) उपर्युक्त (ख) के अन्तर्गत दी गयी दर केवल तभी लागू होगी, यदि धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को समुचित दर पर अदायगी की गयी हो

और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत उक्त शुल्क से छूट प्राप्त नहीं की गयी हो।

III. उप-क्रमांक 2621 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रति-स्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

- |  |  |
|--|--|
| 2621 (क) विस्कोस टायर काई फैब्रिक वार्प शीट्स। | 2.45 रुपये (केवल दो रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (ख) विस्कोस टायर काई फैब्रिक वार्प शीट्स       | 4.95 रुपये (केवल चार रुपये और पंचानबे पैसे) प्रति किलोग्राम। |

**स्पष्टीकरण**—(1) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत दी गयी घरे विस्कोस टायर काई/वार्प शीट्स के निर्यात के लिये भी लागू होगी, जब वे केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अन्तर्गत बंध-पत्र के अधीन निर्यात की जाती हों।

(2) उपर्युक्त (ख) के अन्तर्गत दी गयी दर केवल तभी लागू होगी, यदि घागे पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की समुचित दर पर अदायगी की गयी हो और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत उक्त शुल्क से छूट प्राप्त नहीं की गयी हो।

यह सार्वजनिक सूचना फरवरी, 1976 के प्रथम दिन को लागू हुई समझी जायगी।

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th February 1976

**No. DRAWBACK/PN-31/76.**—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-18/76 dated the 9th February, 1976, published in Part I, Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary the Central Government hereby makes the following corrections therein:—

For the words “for bicycles”, appearing at the end of the column “Rate of Drawback” for item (i), the words “per bicycle” may be read.

### शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1976

**सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-21/76.**—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 1, खण्ड

(i) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी सा० सू०-18/76 दिनांक 9 फरवरी, 1976 में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धियां करती है:—

मद (i) के स्थान पर “प्रतिअदायगी की दर” स्तम्भ के अंत में प्रयुक्त शब्द “साईकलों के लिए,” के स्थान पर “प्रति साईकिल” शब्द पढ़िये।

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th February 1976

**No.1 DRAWBACK/PN-22/76.**—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes

the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/FN-1 dated the 15th October, 1971:—

After sub-serial No. 5008 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
5009	Auto and Bicycle tube valves when exported as such.	Rs. 4.50 (Rupees four and paise fifty only) per kg.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1975.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

### सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1976

सं० प्रतिप्रदायगी/पी० एन०-22/76.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रति-प्रदायगी नियमावली, 1971, (भारत राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपक्रमांक, 5008 और तत्संबन्धी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उप-क्रमांक और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जायगी, अर्थात्:—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
5009	आटो और बाईसिकल टयूब के वाल्व, जब इसी रूप में इनका निर्यात किया जाता हो	4.50 रुपये (केवल चार रुपये और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।

उक्त माल के बारे में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिये निर्धारित सभी ब्रान्ड दरें, इस सार्वजनिक सूचना के लागू हो जाने पर, निष्प्रभावी हो जायगी।

यह सार्वजनिक सूचना जून, 1975 के प्रथम दिन को लागू समझी जायगी।

सी० भुजंगस्वामी, उप सचिव।

(Department of Economic Affairs)

### CORRIGENDA

In the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. F. 2(27)-NS/75, dated the 3rd February, 1976 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I—Section 1, dated the 3rd February, 1976 under Issue No. 29, the following corrections are to be made in the English and Hindi versions respectively:—

(1) In Page 119,

Under column (2) against Serial No. 65, for "1140620" read "1140520"

(2) पृष्ठ संख्या 121 में,

(i) 'पाँच बूसरे इनाम (50,000—50,000 रुपये के) के नीचे :—

क्रम संख्या	कालम	अशुद्ध	शुद्ध
3	3	955197	975197

(ii) बस तीसरे इनाम (20,000—20,000 रुपये के) के नीचे :—

क्रम संख्या	कालम	अशुद्ध	शुद्ध
2	4	पालेश्वर (रुड़की)	पारलेश्वर
3	4	सहारनपुर	रुड़की (सहारनपुर)

(3) पृष्ठ संख्या 122 और 123 में,

सो चौथे इनाम (5,000—5,000 रुपये के) के नीचे :—

क्रम संख्या	कालम	अशुद्ध	शुद्ध
1.	3	307480	507480
4.	3	1752901	1752091
8.	2	4308598	4308538
13.	3	892452	892451
16.	3	157709	157769
25.	2	4131781	4181781
33.	3	235532	235528
71.	2	379—228	3797228

